



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 2012/अग्रहायण 24, 1934

No. 634]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 2012/AGRAHAYANA 24, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 892(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 13 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की सहमति से, उक्त अधिनियम की धारा 18, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के उपबंधों और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं), नियम, 2011 के नियम 32 के उपबंधों से संबंधित अंतर-राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करती है कि उक्त उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई की तिमाही रिपोर्ट, जिसमें दर्ज किए गए, शमनीय, अभियोजित और सिद्धदोष मामलों की संख्या सम्मिलित है, निदेशक को भेजी जाएगी।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-9(16)/2011]

मनोज परिड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2012

G.S.R. 892(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 13 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government, with the consent of the State Government, hereby delegates all the powers exercisable by the Director in relation to inter-State trade and commerce relating to the provisions of Sections 18, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 and 36 of the said Act and rule 32 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 to the Controller in the States of Jharkhand, Punjab and Uttarakhand subject to the condition that a quarterly report of the action taken under the said provisions, including the number of cases booked, compounded, prosecuted and convicted, shall be sent to the Director.

[F. No. WM-9(16)/2011]

MANOJ PARIDA Jt. Secy.